

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 अप्रैल 2025—चैत्र 21, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 फरवरी 2025

क्रमांक 9513/PLGMJ-2301/3/2025-GAD-1.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय अग्रवाल, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 कुल 01 दिन का पूर्व वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. पी. नेताम, सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 जनवरी 2025

क्रमांक ई 1-01/2025/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री एस. प्रकाश, भा.प्र.से. (2005) सचिव, संसदीय कार्य विभाग तथा अति. प्रभार सचिव, परिवहन विभाग, आयुक्त, परिवहन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, परिवहन विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए आयुक्त, परिवहन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

2. डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, भा.प्र.से. (2006), सचिव, सहकारिता विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, माननीय राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

3. श्री यशवंत कुमार, भा.प्र.से. (2007), संचालक, ग्रामोद्योग तथा अति. प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित, प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड सचिव, ग्रामोद्योग विभाग, सचिव, माननीय राज्यपाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, संसदीय कार्य विभाग, संचालक, ग्रामोद्योग, प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्वेष घृतलहरे, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 मार्च 2025

क्रमांक GENCOR/978/2025-COMM. & INDUS.— इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर, कोरबा (छत्तीसगढ़) के बायलर क्रमांक CG/100 को दिनांक 26-03-2025 से दिनांक 30-04-2025 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

- (1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छ.ग. को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी।
- (2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।
- (3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी।
- (4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा।
- (5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी एवं
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार पटेल, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मोहला-मानपुर-अं. चौकी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मोहला-मानपुर-अं. चौकी, दिनांक 27 मार्च 2025

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/12010/भू-अर्जन/2025.— भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम/कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	लोक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मोहला-मानपुर-अं. चौकी	अं. चौकी	पांगरी प.ह.नं. 28/ कृषकों की संख्या-01	0.0042	महाप्रबंधक छ.ग. रोड एण्ड इन्फ्रा डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर अनुसार ग्राम पांगरी की भूमि का लोहारा-रेंगाडबरी-जुनापानी-अं. चौकी मार्ग चौड़ीकरण कार्य अंतर्गत अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 16-04-2025 को समय 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन पांगरी, पर नियत की गयी है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	महाप्रबंधक छ.ग. रोड एण्ड इन्फ्रा डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर अनुसार ग्राम पांगरी की भूमि का लोहारा-रेंगाडबरी-जुनापानी-अं. चौकी मार्ग चौड़ीकरण कार्य अंतर्गत अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	01
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आवागमन में सुविधा
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तुलिका प्रजापति, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 18 फरवरी 2025

प्र. क्रमांक 202304042100073/अ-82/2022-23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-सराईपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.100 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
458/1	0.092
457/1	0.008
योग	02
	0.100

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत तेलीपाली वितरक के कलमी लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 फरवरी 2025

प्र. क्रमांक 202304042100074/अ-82/2022-23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-तुरंगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/5	0.081
1/6	0.016
योग	02
	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत तुरंगा माईनर-1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कार्तिकेया गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-सक्ती, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	(1)	(2)
	522/1	0.065
	522/2	0.012
सक्ती, दिनांक 12 मार्च 2025	523/3	0.020
	522/3	0.012
क्रमांक/07/अ-82/2025.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	524/1	0.061
	534/3	0.085
	535	0.057
	536	0.061
	537	0.101
	538	0.012
अनुसूची	539/1	0.004
(1) भूमि का वर्णन—	योग	12 0.558
(क) जिला-सक्ती		
(ख) तहसील-भोथिया	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहदीखुर्द- हरदी (गाड़ाघाट) मार्ग पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.	
(ग) नगर/ग्राम-हरदी, प.ह.नं. 03		
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.558 हेक्टेयर	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.	
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
514	0.069	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला सर्वेक्षण अधिकारी, जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

रायगढ़, दिनांक 19 मार्च 2025

क्रमांक/26/स.अ.भू.अ./2025.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 67 (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में ग्राम-अजीजगढ़, प.ह.नं.-07, रा.नि.मं.-कुडुमकेला, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के 279.439 हे. क्षेत्र में से 162.899 हे. क्षेत्र के भू-सर्वेक्षण पश्चात सर्वेक्षित क्षेत्र के भू-अभिलेखों के निर्माण तथा संधारण की कार्यवाही के पूर्ण हो जाने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम-अजीजगढ़ में संचालित भू-सर्वेक्षण संबंधी संक्रियाओं तथा क्रियाकलापों को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाना घोषित किया जाता है.

रवि राही,
अपर कलेक्टर.

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
ऑफिस कॉम्प्लेक्स ब्लॉक-A प्रथम तल एकात्म पथ, सेक्टर-24, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 जून 2024

क्रमांक/53/04/योजना/बीओसी/2024/153.— भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद्वारा छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना “मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना” के संबंध में संचालक मंडल के षष्ठम कार्यकाल के प्रथम बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/2012/19 दिनांक 27-11-2012 के कण्डिका (अ) योजना का प्रावधान में बिन्दु क्रमांक (ii) में संशोधन तथा कण्डिका (ब) योजना हेतु पात्रता के बिन्दु क्रमांक (iii) में संशोधन एवं बिन्दु क्रमांक (iv) को सम्मिलित कर निम्नानुसार आंशिक संशोधन अंतः स्थापित किया जाता है :—

मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना :—

कण्डिका (अ) योजना का प्रावधान में बिन्दु क्रमांक (ii) में आंशिक संशोधन किया जाता है :—

- (अ) (ii) योजना के अंतर्गत 10000 सायकल प्रतिवर्ष प्रदेश के पंजीकृत महिला निर्माणी श्रमिकों को प्रदाय किया जावेगा के स्थान पर —
“योजना के तहत निर्माण महिला/पुरुष श्रमिकों के प्राप्त आवेदनों एवं मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पात्र श्रमिकों को लाभ दिया जावेगा”

कण्डिका (ब) योजना हेतु पात्रता में बिन्दु क्रमांक (iii) में आंशिक संशोधन किया जाता है :—

- (ब) (iii) मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना का लाभ न लिया हो के स्थान पर :—
“मंडल द्वारा संचालित “मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना” का लाभ न लिया हो” किया जाता है.

कण्डिका (ब) योजना हेतु पात्रता में बिन्दु क्रमांक (iv) को सम्मिलित किया जाता है :—

- (ब) (iv) पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को योजना का लाभ केवल एक बार ही प्रदाय किया जावेगा.

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी)

उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 जून 2024

क्रमांक/41/04/योजना/बीओसी/2024/154.— भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद्वारा छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित “मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना” के संबंध में संचालक मंडल

के षष्ठम कार्यकाल के प्रथम बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 51 दिनांक 02-02-2017 के कण्डिका (अ) योजना के प्रावधान में बिन्दु क्रमांक (ii) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन अंतः स्थापित किया जाता है :—

मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना :—

कण्डिका (अ) योजना का प्रावधान में बिन्दु क्रमांक (ii) में आंशिक संशोधन किया जाता है :—

- (अ) (ii) मुख्यमंत्री निर्माण मजदूरी सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के तहत प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को हेलमेट, जूता, दस्ताना, सेफ्टी किट एवं मास्क हेतु सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित दर अथवा रुपये 1500/- जो भी कम हो, हितग्राही द्वारा उक्त सामग्री स्वयं के व्यय के क्रय पश्चात् देयक सहित आवेदन प्रस्तुत करने पर मंडल द्वारा प्रदाय किया जावेगा के स्थान पर —

“मुख्यमंत्री निर्माण मजदूरी सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के तहत प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को हेलमेट, जूता, दस्ताना, सेफ्टी किट एवं मास्क हेतु सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित दर अथवा रुपये 1500/- जो कम होगा मंडल द्वारा प्रदाय किया जावेगा.”

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी.)

उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 जून 2024

क्रमांक/61/04/योजना/बीओसी/2024/155.— भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद्वारा छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना “मिनीमाता महतारी जतन योजना” के संबंध में संचालक मंडल के षष्ठम कार्यकाल के प्रथम बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक /61/04/योजना/बीओसी/2021/113 दिनांक 25-11-2021 में कण्डिका (क) योजना के प्रावधान में बिन्दु क्रमांक (8) को सम्मिलित तथा अधिसूचना क्रमांक/46/04/योजना/बीओसी/2022/130 दिनांक 09-12-2022 के कण्डिका (ख) योजना की पात्रता बिन्दु (1) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन अंतः स्थापित किया जाता है :—

मिनीमाता महतारी जतन योजना :—

कण्डिका (क) योजना का प्रावधान में बिन्दु क्रमांक (8) को सम्मिलित किया जाता है :—

- (क) (8) पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक को देय सहायता राशि प्रसूति के दौरान मजदूरी क्षतिपूर्ति राशि कहलायेगी.

कण्डिका (ख) योजना की पात्रता में बिन्दु क्रमांक (1) में आंशिक संशोधन किया जाता है :—

- (ख) (1) निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना अनिवार्य होगा के स्थान पर—
“योजना में निर्माण श्रमिक के रूप में न्यूनतम 01 वर्ष पूर्व पंजीयन होना अनिवार्य होगा. (अर्थात् बच्चे के जन्म दिवस के 1 वर्ष पूर्व पंजीयन होना अनिवार्य है.)”

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी.)

उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 जून 2024

क्रमांक/66/04/योजना/बीओसी/2024/156.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद्वारा छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना “मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना” के संबंध में संचालक मंडल के षष्ठम कार्यकाल के प्रथम बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-30/2010/16 रायपुर दिनांक 01-10-2010 के कण्डिका (अ) योजना का प्रावधान में बिन्दु क्रमांक (ii) में संशोधन एवं कण्डिका (ब) योजना हेतु पात्रता में बिन्दु क्रमांक (iv) को सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार आंशिक संशोधन अंतः स्थापित किया जाता है :—

मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना :—

कण्डिका (अ) योजना का प्रावधान में बिन्दु क्रमांक (ii) में आंशिक संशोधन किया जाता है :—

- (अ) (ii) योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य जैसे राजमिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेन्टर, कुली, पेन्टर, आदि प्रकार के ट्रेड के श्रमिकों को कुल 10000 औजार किट प्रतिवर्ष वितरित किया जावेगा के स्थान पर —
“योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य जैसे राजमिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेन्टर, कुली, पेन्टर, आदि प्रकार के ट्रेड के श्रमिकों को उक्त योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के प्राप्त आवेदनों एवं मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पात्र श्रमिकों को लाभ दिया जावेगा.”

कण्डिका (ब) योजना हेतु पात्रता में बिन्दु क्रमांक (iv) को सम्मिलित किया जाता है :—

- (ब) (iv) पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को पूरे पंजीयन अवधि के दौरान योजना का लाभ एक बार ही प्रदाय किया जावेगा.

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी.)

उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 जून 2024

क्रमांक/93/04/योजना/बीओसी/2024/157.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद्वारा छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना “मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन योजना” के संबंध में संचालक मंडल के षष्ठम कार्यकाल के प्रथम बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-9/2011/16 रायपुर दिनांक 04-06-2011 एवं अधिसूचना क्रमांक 25 एफ-17/2012/16 रायपुर दिनांक 24-01-2013 के कण्डिका (अ) योजना के प्रावधान में बिन्दु क्रमांक (ii) एवं (iii) में आंशिक संशोधन तथा अधिसूचना के कण्डिका (ब) योजना हेतु पात्रता में बिन्दु क्रमांक (ii) एवं (iii) को सम्मिलित कर निम्नानुसार आंशिक संशोधन अंतः स्थापित किया जाता है :—

मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन योजना :—

कण्डिका (अ) योजना का प्रावधान में बिन्दु क्रमांक (ii) एवं (iii) में आंशिक संशोधन किया जाता है :—

- (अ) (ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए चिकित्सा हेतु मंडल द्वारा निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा प्रदाय की जावेगी के स्थान पर —
“योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के निर्माणाधीन कार्य स्थल, चावड़ी, जिले में आयोजित जन शिकायत निवारण शिविर एवं श्रमिक सम्मेलन, शिविर में श्रमिकों के पंजीयन, नवकरण उक्त वेन के माध्यम से निःशुल्क आवेदन किये जाने की सुविधा प्रदान की जावेगी.”

- (अ) (ii) उक्त योजना में होने वाले संपूर्ण व्यय छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा वहन किया जावेगा के स्थान पर —
 “उक्त योजना में होने वाले संपूर्ण व्यय (वाहन के ईंधन, वाहन मरम्मत, 01 कम्प्यूटर सेट/टेबलेट, 01 डाटा एण्ट्री ऑपरेटर एवं 01 वाहन चालक का व्यय) छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा वहन किया जावेगा”

कण्डिका (ब) योजना हेतु पात्रता में बिन्दु क्रमांक (ii) एवं (iii) को सम्मिलित किया जाता है :—

- (ब) (ii) योजना की पात्रता में निर्माण श्रमिक अधिसूचित प्रवर्गों में निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य कर रहा हो अथवा पंजीकृत हो.
- (ब) (iii) योजनांतर्गत प्रदाय वेन में मंडल में संचालित योजना एवं पंजीयन संबंधी प्रावधान प्रदर्शित किया जायेगा.

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी.)

उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 जून 2024

क्रमांक/33/04/योजना/बीओसी/2024/158.— भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद्वारा छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना “दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना” के संबंध में संचालक मंडल के षष्ठम कार्यकाल के प्रथम बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 64 दिनांक 20-04-2018 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ-10-02/2019/16 दिनांक 23-01-2019 के कण्डिका (ब) योजना की पात्रता में बिन्दु क्रमांक (vi) को सम्मिलित कर निम्नानुसार आंशिक संशोधन अंतः स्थापित किया जाता है :—

दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना :—

कण्डिका (ब) योजना की पात्रता में बिन्दु क्रमांक (vi) को सम्मिलित किया जाता है :—

- (ब) (vi) पंजीकृत महिला निर्माता श्रमिक जो न्यूनतम 03 वर्षों से मंडल में पंजीकृत हो वह योजनांतर्गत अनुदान राशि हेतु पात्र होंगे.

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी.)

उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 जून 2024

क्रमांक/48/03/04/योजना/बीओसी/2024/159.— भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद्वारा छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना “मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना” के संबंध में संचालक मंडल के

षष्ठम कार्यकाल के प्रथम बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/2012/11 दिनांक 27-11-2012 के कण्डिका (अ) योजना के प्रावधान में बिन्दु क्रमांक (ii) में संशोधन एवं अधिसूचना क्रमांक 105/48/03/04/योजना/बीओसी/2020 दिनांक 02-03-2020 कण्डिका (ब) योजना हेतु पात्रता में बिन्दु क्रमांक (vi) को सम्मिलित कर निम्नानुसार आंशिक संशोधन अंतः स्थापित किया जाता है :—

मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना :—

कण्डिका (अ) योजना का प्रावधान में बिन्दु क्रमांक (ii) में आंशिक संशोधन किया जाता है :—

- (अ) (ii) योजना के अंतर्गत 10000 सिलाई मशीन प्रतिवर्ष प्रदेश के पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को प्रदाय किया जावेगा के स्थान पर —
 “पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों योजना के तहत प्राप्त आवेदनों एवं समय-समय पर मंडल द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पात्र श्रमिकों को लाभ दिया जावेगा”

कण्डिका (ब) योजना की पात्रता में बिन्दु क्रमांक (vi) को सम्मिलित किया जाता है :—

- (ब) (vi) पंजीकृत महिला निर्माता श्रमिक को योजना का लाभ केवल एक बार प्रदाय किया जावेगा.

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी.)

उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 जुलाई 2024

क्रमांक/41/04/योजना/बीओसी/2024/160.— भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद्वारा छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना “मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना” के संबंध में संचालक मंडल के षष्ठम कार्यकाल के प्रथम बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/46/04/योजना/बीओसी/2023/140 दिनांक 17-04-2023 के कण्डिका (च) योजना की पात्रता में बिन्दु क्रमांक (3) में आंशिक संशोधन यथा अधिसूचना क्रमांक/46/04/योजना/बीओसी/2022/114 दिनांक 29-01-2022 के कण्डिका (च) योजना की पात्रता में बिन्दु क्रमांक (10) को सम्मिलित कर निम्नानुसार आंशिक संशोधन अंतः स्थापित किया जाता है :—

मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना :—

कण्डिका (च) योजना का प्रावधान में बिन्दु क्रमांक (3) में आंशिक संशोधन किया जाता है :—

- “पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम दो पुत्री प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होंगे (प्रथम दो अविवाहित पुत्री से अभिप्राय यह है कि प्रथम दो संतान में से ही पुत्री योजना अंतर्गत पात्र होंगे.)”

कण्डिका (च) योजना की पात्रता में बिन्दु क्रमांक (10) को सम्मिलित किया जाता है :—

- (च) (10) “जिन लड़कियों द्वारा मंडल अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना में जिस वित्तीय वर्ष में लाभ लिया गया है वह उक्त वित्तीय वर्ष में मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना एवं मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत उसी शैक्षणिक वर्ष के छात्रवृत्ति/शिक्षा प्रोत्साहन राशि के लाभ हेतु अपात्र होंगे.”

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी.)

उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 जुलाई 2024

क्रमांक/57/04/योजना/बीओसी/2024/161.— भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद्द्वारा छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना “मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना” के संबंध में संचालक मंडल के षष्ठम कार्यकाल के प्रथम बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 09 दिनांक 26-11-2012 के कण्डिका (अ) योजना का प्रावधान में बिन्दु क्रमांक (iii) में आंशिक संशोधन एवं बिन्दु क्रमांक (vi) सम्मिलित कर तथा अधिसूचना के कण्डिका (ब) योजना हेतु पात्रता में बिन्दु क्रमांक (iv) सम्मिलित कर तथा कण्डिका (द) योजना हेतु व्यय में बिन्दु क्रमांक (ii) एवं (iii) सम्मिलित कर निम्नानुसार आंशिक संशोधन अंतः स्थापित किया जाता है :—

मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना :—

कण्डिका (अ) योजना का प्रावधान में बिन्दु क्रमांक (iii) में आंशिक संशोधन किया जाता है :—

- (iii) योजना अंतर्गत छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (CSSDA), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC), भारतीय निर्माण कौशल विकास परिषद (CSDCI), राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVT), भारत सरकार कौशल विकास विभाग द्वारा अधिकृत संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण की कार्यवाही की जावेगी.

कण्डिका (अ) योजना का प्रावधान में बिन्दु क्रमांक (vi) को सम्मिलित किया जाता है :—

- (vi) भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा भारत सरकार, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के द्वारा समय-समय पर जारी प्रशिक्षण दिशा-निर्देशों का पालन किया जावेगा.

कण्डिका (ब) योजना हेतु पात्रता में बिन्दु क्रमांक (iv) को सम्मिलित किया जाता है :—

- (vi) मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित संतानों को 03 वर्ष में एक बार प्रशिक्षण दिया जावेगा.

कण्डिका (द) योजना हेतु व्यय में बिन्दु क्रमांक (ii) एवं (iii) को सम्मिलित किया जाता है :—

- (ii) भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एवं मॉडल वेलफेयर स्कीम के जारी दिशा-निर्देश में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संग्रहित उपकर के 10 प्रतिशत राशि प्रशिक्षण कार्य में व्यय किया जाना प्रावधानित किया गया है, के अनुरूप व्यय किया जावेगा.
- (iii) श्रमिकों के प्रशिक्षण कराये जाने पर प्रशिक्षण शुल्क, मानदेय एवं परीक्षा/मूल्यांकन शुल्क का भुगतान छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (CSSDA), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC), भारतीय निर्माण कौशल विकास परिषद (CSDCI), राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVT), एवं भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा भारत सरकार कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा निर्धारित दरों पर किया जावेगा.

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी.)

उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 जुलाई 2024

क्रमांक/82/01/04/योजना/बीओसी/2023/162.—“भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996” सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008” के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित “मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना” में छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के संचालक मंडल की 20वीं बैठक दिनांक 26-07-2023 में लिए गए निर्णय के परिपालन में पूर्व में जारी अधिसूचना क्र./82/01/04/योजना/बीओसी/2023/147 दिनांक 10-07-2023 के कण्डिका (ग) योजना का प्रावधान/देय हितलाभ एवं पात्रता के बिन्दु (2) के तालिका में (2.5) एवं कण्डिका (घ) योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज में बिन्दु (9) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन अंतः स्थापित किया जाता है :—

“मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना” :—

कण्डिका (ग) योजना का प्रावधान/देय हितलाभ एवं पात्रता के बिन्दु (2) के तालिका के (2.5) में आंशिक संशोधन किया जाता है :—

क्र.	कक्षावार विवरण	वार्षिक प्रोत्साहन राशि/देय हितलाभ	पात्रता
2.5	छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की प्रदेश स्तरीय परीक्षा में मेरिट के टॉप टेन में आने वाले छात्र एवं छात्राओं हेतु प्रोत्साहन राशि	वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रोत्साहन राशि रुपये 1,00,000/- के अतिरिक्त राशि रु. 1,00,000/- अनुदान राशि दोपहिया वाहन क्रय किए जाने हेतु देय होगा यदि छात्र/छात्रा की आयु 16 वर्ष से कम हो तो दोपहिया वाहन हेतु अनुदान एफ.डी. के रूप में देय होगा, जिसे छात्र/छात्रा के 16 वर्ष पूर्ण होने उपरांत ड्राइविंग/लर्निंग लाइसेंस बनाकर दोपहिया वाहन क्रय किये जाने पर नगदीकरण की अनुमति होगी.	दसवीं एवं बारहवीं की प्रदेश स्तरीय बोर्ड परीक्षा में केवल मेरिट में प्रथम दस में आने वाले छात्र/छात्राओं को देय होगा एवं श्रमिक माता/पिता का मंडल में 90 दिवस पूर्व पंजीयन हो.

कण्डिका (घ) योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज के बिन्दु (9) में आंशिक संशोधन किया जाता है :—

- (9) कक्षा दसवीं अथवा बारहवीं के मेरिट सूचि में प्रथम 10 में आने के संबंध में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा दोपहिया वाहन अनुदान हेतु छात्र/छात्रा के 16 वर्ष से अधिक आयु की स्थिति में लर्निंग लाइसेंस/लाइसेंस संलग्न करना अनिवार्य होगा.”

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी.)

उपरोक्त योजना में संशोधन वित्तीय वर्ष 2022-23 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावशील होगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 जुलाई 2024

क्रमांक/46/04/योजना/बीओसी/2024/163.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद्वारा छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना “मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना” के संबंध में संचालक मंडल के

षष्ठम कार्यकाल के प्रथम बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/46/04/योजना/बीओसी/2022/114 दिनांक 29-01-2022 के कण्डिका (च) योजना की पात्रता में बिन्दु क्रमांक (1) में आंशिक संशोधन कर निम्नानुसार अंतः स्थापित किया जाता है :—

मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना :—

कण्डिका (च) योजना का प्रावधान में बिन्दु क्रमांक (1) में आंशिक संशोधन किया जाता है :—

- (च) (1) “लड़की के पिता या माता अथवा दोनों, कम से कम 03 वर्ष की अवधि से मण्डल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हों.”

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी.)

उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा.

सविता मिश्रा,
सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 5 फरवरी 2025

क्रमांक 2514/चेकर/तीन-10-8/2000 (IX).—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-18894/चेकर/तीन-10-8/2000 (IX), दिनांक 22-11-2024 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एतद्वारा निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिला के लिये, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 584/395/21-ब/2025, दिनांक 05 फरवरी, 2025 द्वारा स्थापित जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी तथा सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय दिनांक 10-02-2025 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे :—

सारणी

क्र.	सिविल जिले के नाम	जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय	
		बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बालोद	1. बालोद	2	1. बालोद 2. गुण्डरदेही	3 1	1. बालोद 2. दल्लीराजहरा 3. डौण्डीलोहारा	2 1 1
2.	बलौदाबाजार- भाटापारा	1. बलौदाबाजार 2. भाटापारा	5 1	1. बलौदाबाजार 2. भाटापारा 3. कसडोल	2 1 1	1. बलौदाबाजार 2. सिमगा	2 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	बलरामपुर - रामानुजगंज.	1. रामानुजगंज	2	1. रामानुजगंज	*2	1. बलरामपुर 2. वाड्डफनगर 3. राजपुर	1 1 1
4.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	8
5.	बेमेतरा	1. बेमेतरा	2	1. बेमेतरा	3	1. बेमेतरा 2. साजा	2 1
6.	बिलासपुर	1. बिलासपुर 2. पेण्डारोड	13 2	1. बिलासपुर 2. पेण्डारोड 3. बिल्हा 4. तखतपुर	5 2 1 <u>1</u>	1. बिलासपुर 2. पेण्डारोड 3. कोटा 4. मरवाही 5. तखतपुर	10 1 2 1 1
7.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	1. दंतेवाड़ा	5	1. दंतेवाड़ा 2. सुकमा 3. बीजापुर	1 2 1	1. दंतेवाड़ा 2. बीजापुर 3. बचेली 4. कोंटा	2 1 1 1
8.	धमतरी	1. धमतरी	1	1. धमतरी 2. कुरूद	2 1	1. धमतरी 2. नगरी 3. कुरूद	3 1 1
9.	दुर्ग	1. दुर्ग 2 पाटन	15 1	1. दुर्ग 2. पाटन 3. भिलाई-3	5 1 1	1. दुर्ग 2. भिलाई-3 3. धमधा	18 2 1
10.	जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर 2. सक्ती	5 2	1. जांजगीर 2. सक्ती 3. चांपा 4. अकलतरा	2 2 1 1	1. जांजगीर 2. सक्ती 3. डभरा 4. पामगढ़ 5. जैजेपुर 6. नवागढ़ 7. मालखरौदा 8. चांपा	4 1 2 1 1 1 1 1
11.	जशपुर	1. जशपुर 2. कुनकुरी 3. पत्थलगांव	1 2 1	1. जशपुर 2. कुनकुरी	2 1	1. जशपुर 2. पत्थलगांव 3. बगीचा 4. कुनकुरी	1 1 1 1
12.	कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा	1	1. कवर्धा	4	1. कवर्धा 2. पंडरिया	2 1
13.	कोण्डागांव	1. कोण्डागांव 2. नारायणपुर	1 <u>1</u>	1. कोण्डागांव 2. नारायणपुर	2 1	1. नारायणपुर 2. केशकाल	1 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14.	कोरबा	1. कोरबा 2. कटघोरा	3 3	1. कोरबा 2. कटघोरा	3 2	1. कोरबा 2. कटघोरा 3. पाली 4. करतला	3 2 1 1
15.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	1. बैकुण्ठपुर 2. मनेन्द्रगढ़ 3. चिरमिरी	1 2 1	1. बैकुण्ठपुर 2. मनेन्द्रगढ़ 3. चिरमिरी	2 2 1	1. बैकुण्ठपुर 2. मनेन्द्रगढ़ 3. जनकपुर	2 1 1
16.	महासमुंद	1. महासमुंद 2. सराईपाली	3 2	1. महासमुंद 2. सराईपाली	3 1	1. महासमुंद 2. पिथौरा 3. बसना 4. बागबाहरा	4 1 1 1
17.	मुंगेली	1. मुंगेली	2	1. मुंगेली	3	1. मुंगेली 2. लोरमी	1 1
18.	रायगढ़	1. रायगढ़ 2. सारंगढ़ 3. घरघोड़ा	9 1 1	1. रायगढ़ 2. घरघोड़ा 3. सारंगढ़	2 1 2	1. रायगढ़ 2. धरमजयगढ़ 3. खरसिया 4. बिलाईगढ़ 5. भटगांव 6. घरघोड़ा 7. सारंगढ़	6 1 2 1 1 1 1
19.	रायपुर	1. रायपुर 2. गरियाबंद	18 1	1. रायपुर 2. गरियाबंद	8 2	1. रायपुर 2. गरियाबंद 3. राजिम 4. तिल्दा 5. देवभोग 6. आरंग	22 1 1 1 1 1
20.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव 2. खैरागढ़ 3. डोंगरगढ़	3 1 1	1. राजनांदगांव 2. अम्बागढ़-चौकी 3. डोंगरगढ़ 4. खैरागढ़	2 2 1 2	1. राजनांदगांव 2. डोंगरगढ़ 3. खैरागढ़ 4. छुईखदान	3 1 1 1
21.	सूरजपुर	1. सूरजपुर 2. प्रतापपुर	5 1	1. सूरजपुर 2. प्रतापपुर	4 1	1. सूरजपुर	4
22.	सरगुजा (अम्बिकापुर)	1. अम्बिकापुर	7	1. अम्बिकापुर	3	1. अंबिकापुर 2. सीतापुर	5 2
23.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर 2. भानुप्रतापपुर 3. पखांजूर	1 2 1	1. कांकेर 2. भानुप्रतापपुर	3 1	1. कांकेर 2. पखांजूर	1 1
योग			135				167

नोट :— रामानुजगंज में सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के *2 न्यायालय — (रामानुजगंज-1 + बलरामपुर-1)

No. 2514/Checker/III-10-8/2000 (IX).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) and in supersession of its previous Notification No. 18894/Checker/III-10-8/2000 (IX), dated 22-11-2024, the High Court hereby directs that the Courts of District Judges, Civil Judges, Senior Division and Civil Judges Junior Division as established by the Law Department Notification No. 584/395/21-B/2025, dated 05-02-2025 for each Civil District in Chhattisgarh shall sit with effect from the date 10-02-2025 at the places specified against them in the table below :—

TABLE

Sl. No.	Name of Civil District	Court of District Judges		Court of Civil Judges Senior Division		Court of Civil Judges Junior Division	
		Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Balod	1. Balod	2	1. Balod 2. Gunderdehi	3 1	1. Balod 2. Dallirajhara 3. Daundilohara	2 1 1
2.	Balodabazar-Bhatapara	1. Balodabazar 2. Bhatapara	5 1	1. Balodabazar 2. Bhatapara 3. Kasdol	2 1 1	1. Balodabazar 2. Simga	2 1
3.	Balrampur-Ramanujganj	1. Ramanujganj	2	1. Ramanujganj	*2	1. Balrampur 2. Wadrafnagar 3. Rajpur	1 1 1
4.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	8
5.	Bemetara	1. Bemetara	2	1. Bemetara	3	1. Bemetara 2. Saja	2 1
6.	Bilaspur	1. Bilaspur 2. Pendraroad	13 2	1. Bilaspur 2. Pendraroad 3. Bilha 4. Takhatpur	5 2 1 1	1. Bilaspur 2. Pendraroad 3. Kota 4. Marwahi 5. Takhatpur	10 1 2 1 1
7.	Dakshin Bastar (Dantewada)	1. Dantewada	5	1. Dantewada 2. Sukma 3. Bijapur	1 2 1	1. Dantewada 2. Bijapur 3. Bacheli 4. Konta	2 1 1 1
8.	Dhamtari	1. Dhamtari	1	1. Dhamtari 2. Kurud	2 1	1. Dhamtari 2. Nagri 3. Kurud	3 1 1
9.	Durg	1. Durg 2. Patan	15 1	1. Durg 2. Patan 3. Bhilai-3	5 1 1	1. Durg 2. Bhilai-3 3. Dhamdha	18 2 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10.	Janjgir-Champa	1. Janjgir 2. Sakti	5 2	1. Janjgir 2. Sakti 3. Champa 4. Akaltara	2 2 1 1	1. Janjgir 2. Sakti 3. Dabhra 4. Pamgarh 5. Jaijaipur 6. Navagarh 7. Malkharoda 8. Champa	4 1 2 1 1 1 1 1
11.	Jashpur	1. Jashpur 2. Kunkuri 3. Patthalgaon	1 2 1	1. Jashpur 2. Kunkuri	2 1	1. Jashpur 2. Patthalgaon 3. Bagicha 4. Kunkuri	1 1 1 1
12.	Kabirdham (Kawardha)	1. Kawardha	1	1. Kawardha	4	1. Kawardha 2. Pandariya	2 1
13.	Kondagaon	1. Kondagaon 2. Narayanpur	1 1	1. Kondagaon 2. Narayanpur	2 1	1. Narayanpur 2. Keshkal	1 1
14.	Korba	1. Korba 2. Katghora	3 3	1. Korba 2. Katghora	3 2	1. Korba 2. Katghora 3. Pali 4. Kartala	3 2 1 1
15.	Koriya (Baikunthpur)	1. Baikunthpur 2. Manendragarh 3. Chirmiri	1 2 1	1. Baikunthpur 2. Manendragarh 3. Chirmiri	2 2 1	1. Baikunthpur 2. Manendragarh 3. Janakpur	2 1 1
16.	Mahasamund	1. Mahasamund 2. Saraipali	3 2	1. Mahasamund 2. Saraipali	3 1	1. Mahasamund 2. Pithoura 3. Basna 4. Bagbahara	4 1 1 1
17.	Mungeli	1. Mungeli	2	1. Mungeli	3	1. Mungeli 2. Lormi	1 1
18.	Raigarh	1. Raigarh 2. Sarangarh 3. Gharghora	9 1 1	1. Raigarh 2. Gharghora 3. Sarangarh	2 1 2	1. Raigarh 2. Dharamjaigarh 3. Kharsiya 4. Bilaigarh 5. Bhatgaon 6. Gharghora 7. Sarangarh	6 1 2 1 1 1 1
19.	Raipur	1. Raipur 2. Gariaband	18 1	1. Raipur 2. Gariaband	8 2	1. Raipur 2. Gariaband 3. Rajim 4. Tilda 5. Devbhog 6. Arang	22 1 1 1 1 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon 2. Khairagarh 3. Dongargarh	3 1 1	1. Rajnandgaon 2. Ambagarh- chouki. 3. Dongargarh 4. Khairagarh	2 2 1 2	1. Rajnandgaon 2. Dongargarh 3. Khairagarh 4. Chhuikhadan	3 1 1 1
21.	Surajpur	1. Surajpur 2. Pratappur	5 1	1. Surajpur 2. Pratappur	4 1	1. Surajpur	4
22.	Sarguja (Ambikapur)	1. Ambikapur	7	1. Ambikapur	3	1. Ambikapur 2. Sitapur	5 2
23.	Uttar Bastar (Kanker)	1. Kanker 2. Bhanupratappur 3. Pakhanjur	1 2 1	1. Kanker 2. Bhanupratappur	3 1	1. Kanker 2. Pakhanjur	1 1
Total			135	106		167	

Note :— *2 Courts of Civil Judge Senior Division - (Ramanujganj -1 + Balrampur-1)

Bilaspur, the 6th February 2025

No. 4557/Checker/III-6-2/2007 (Pt.-I).—In exercise of the powers Conferred under clause (b) of sub-section (1) of Section 283 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers the following Judicial Magistrate First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section :—

Sl. No.	Name of the Judicial Magistrate First Class	Present place of posting	Civil District
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ku. Pooja Mandavi, J.M.F.C., Kawardha	Kawardha	Kabirdham (Kawardha)
2.	Ku. Tannya Brahme, J.M.F.C., Mahasamund	Mahasamund	Mahasamund
3	Shri Vinay Kumar Sahu, J.M.F.C., Saraipali	Saraipali	

By order of the High Court,
K. VINOD KUJUR, Registrar General.